



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1223]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 2, 2017/वैशाख 12, 1939

No. 1223]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 2, 2017/VAISAKHA 12, 1939

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2017

का.आ. 1385(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2902(अ) तारीख 7 सितम्बर, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थातः—

उक्त अधिसूचना के पैरा 3 में,-

(क) उप पैरा (1) में, विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएंगी, अर्थात्:-

सारणी: 3.1

स्टार रेटिंग योजना की विधिमान्यता (7 सितम्बर, 2016 से 30 जून, 2017 तक)

| रेटेड क्षमता (लीटर) | 1 स्टार | 2 स्टार | 3 स्टार | 4 स्टार | 5 स्टार |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| स्थायी हानि (किलोवॉट/24 घंटे/450 से.) | | | | | |
| 6 | $\leq 0.469 > 0.426$ | $\leq 0.426 > 0.387$ | $\leq 0.387 > 0.352$ | $\leq 0.352 > 0.320$ | ≤ 0.320 |
| 10 | $\leq 0.587 > 0.534$ | $\leq 0.534 > 0.485$ | $\leq 0.485 > 0.441$ | $\leq 0.441 > 0.401$ | ≤ 0.401 |
| 15 | $\leq 0.675 > 0.614$ | $\leq 0.614 > 0.558$ | $\leq 0.558 > 0.507$ | $\leq 0.507 > 0.461$ | ≤ 0.461 |
| 25 | $\leq 0.823 > 0.748$ | $\leq 0.748 > 0.680$ | $\leq 0.680 > 0.618$ | $\leq 0.618 > 0.562$ | ≤ 0.562 |
| 35 | $\leq 0.940 > 0.855$ | $\leq 0.855 > 0.777$ | $\leq 0.777 > 0.706$ | $\leq 0.706 > 0.642$ | ≤ 0.642 |
| 50 | $\leq 1.086 > 0.988$ | $\leq 0.988 > 0.898$ | $\leq 0.898 > 0.816$ | $\leq 0.816 > 0.742$ | ≤ 0.742 |
| 70 | $\leq 1.233 > 1.121$ | $\leq 1.121 > 1.019$ | $\leq 1.019 > 0.926$ | $\leq 0.926 > 0.842$ | ≤ 0.842 |

| | | | | | |
|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 100 | $\leq 1.408 > 1.280$ | $\leq 1.280 > 1.164$ | $\leq 1.164 > 1.058$ | $\leq 1.058 > 0.962$ | ≤ 0.962 |
| 140 | $\leq 1.586 > 1.441$ | $\leq 1.441 > 1.310$ | $\leq 1.310 > 1.191$ | $\leq 1.191 > 1.083$ | ≤ 1.083 |
| 200 | $\leq 1.761 > 1.601$ | $\leq 1.601 > 1.456$ | $\leq 1.456 > 1.323$ | $\leq 1.323 > 1.203$ | ≤ 1.203 |

सारणी: 3.2**स्टार रेटिंग योजना की विधिमान्यता (1 जुलाई, 2017 से 31 दिसम्बर, 2018 तक)**

| रेटिंग क्षमता (लीटर) | 1 स्टार | 2 स्टार | 3 स्टार | 4 स्टार | 5 स्टार |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | स्थायी हानि (किलोवॉट/24 घंटे/450 से.) | | | | |
| 6 | $\leq 0.469 > 0.426$ | $\leq 0.426 > 0.387$ | $\leq 0.387 > 0.352$ | $\leq 0.352 > 0.320$ | ≤ 0.320 |
| 10 | $\leq 0.587 > 0.534$ | $\leq 0.534 > 0.485$ | $\leq 0.485 > 0.441$ | $\leq 0.441 > 0.401$ | ≤ 0.401 |
| 15 | $\leq 0.675 > 0.614$ | $\leq 0.614 > 0.558$ | $\leq 0.558 > 0.507$ | $\leq 0.507 > 0.461$ | ≤ 0.461 |
| 25 | $\leq 0.823 > 0.748$ | $\leq 0.748 > 0.680$ | $\leq 0.680 > 0.618$ | $\leq 0.618 > 0.562$ | ≤ 0.562 |
| 35 | $\leq 0.940 > 0.855$ | $\leq 0.855 > 0.777$ | $\leq 0.777 > 0.706$ | $\leq 0.706 > 0.642$ | ≤ 0.642 |
| 50 | $\leq 1.086 > 0.988$ | $\leq 0.988 > 0.898$ | $\leq 0.898 > 0.816$ | $\leq 0.816 > 0.742$ | ≤ 0.742 |
| 70 | $\leq 1.233 > 1.121$ | $\leq 1.121 > 1.019$ | $\leq 1.019 > 0.926$ | $\leq 0.926 > 0.842$ | ≤ 0.842 |
| 100 | $\leq 1.408 > 1.280$ | $\leq 1.280 > 1.164$ | $\leq 1.164 > 1.058$ | $\leq 1.058 > 0.962$ | ≤ 0.962 |
| 140 | $\leq 1.586 > 1.441$ | $\leq 1.441 > 1.310$ | $\leq 1.310 > 1.191$ | $\leq 1.191 > 1.083$ | ≤ 1.083 |
| 200 | $\leq 1.761 > 1.601$ | $\leq 1.601 > 1.456$ | $\leq 1.456 > 1.323$ | $\leq 1.323 > 1.203$ | ≤ 1.203 |

(ii) उप पैरा (1) के पश्चात निम्नलिखित उप पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(1क) उक्त भंडारण प्रकार के बिजली के वॉटर हीटर के न्यूनतम ऊर्जा निष्पादन स्तर को उन्नत बनाने के विचार से 1 जुलाई 2017 से सारणी 3.2 में निर्दिष्ट 1 स्टार और 2 स्टार के लिए 100 लीटर की रेटिंग क्षमता वाले भंडारण प्रकार के बिजली के वॉटर हीटर पर विवरणों के सम्प्रदर्श के लिए अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(iii) उप पैरा (2) में निम्नलिखित उप पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(2) स्टार रेटिंग बैंड के लिए कोई क्रृष्णात्मक छूट नहीं होगी और सभी परखे गए उपकरण प्रत्येक स्टार रेटिंग स्तर के लिए न्यूनतम श्रेष्ठ होल्ड पूरे करेंगे; और विनिर्माण छूट के विस्तार और अन्य विविधताओं को स्टार रेटिंग का निर्धारण करते समय विनिर्माता द्वारा विचार में लिया जाएगा।

स्टार रेटिंग योजना की पुनर्विलोकित उपरोक्त सारणी में दी गई समय अवधि पूरी होने के बाद या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनिवार्य ठीक जाने पर की जाएगी।”.

[फा. सं. 13/14/2014-ईसी]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में अधिसूचना सं. का. आ. 2902(अ) तारीख 7 सितम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF POWER
NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2017

S.O. 1385(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Power number S.O. 2902(E), dated the 7th September, 2016, namely:-

In the said notification, in paragraph 3,-

(a) in sub-paragraph (1), for the existing Table, the following Tables shall be substituted, namely:-

“TABLE: 3.1

Star rating plan validity (From 7th September, 2016 to 30th June 2017)

| Rated Capacity (Litres) | 1 star | 2 star | 3 star | 4 star | 5 star |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Standing Losses (kWh/24 hour/45°C) | | | | | |
| 6 | $\leq 0.469 \& > 0.426$ | $\leq 0.426 \& > 0.387$ | $\leq 0.387 \& > 0.352$ | $\leq 0.352 \& > 0.320$ | ≤ 0.320 |
| 10 | $\leq 0.587 \& > 0.534$ | $\leq 0.534 \& > 0.485$ | $\leq 0.485 \& > 0.441$ | $\leq 0.441 \& > 0.401$ | ≤ 0.401 |
| 15 | $\leq 0.675 \& > 0.614$ | $\leq 0.614 \& > 0.558$ | $\leq 0.558 \& > 0.507$ | $\leq 0.507 \& > 0.461$ | ≤ 0.461 |
| 25 | $\leq 0.823 \& > 0.748$ | $\leq 0.748 \& > 0.680$ | $\leq 0.680 \& > 0.618$ | $\leq 0.618 \& > 0.562$ | ≤ 0.562 |
| 35 | $\leq 0.940 \& > 0.855$ | $\leq 0.855 \& > 0.777$ | $\leq 0.777 \& > 0.706$ | $\leq 0.706 \& > 0.642$ | ≤ 0.642 |
| 50 | $\leq 1.086 \& > 0.988$ | $\leq 0.988 \& > 0.898$ | $\leq 0.898 \& > 0.816$ | $\leq 0.816 \& > 0.742$ | ≤ 0.742 |
| 70 | $\leq 1.233 \& > 1.121$ | $\leq 1.121 \& > 1.019$ | $\leq 1.019 \& > 0.926$ | $\leq 0.926 \& > 0.842$ | ≤ 0.842 |
| 100 | $\leq 1.408 \& > 1.280$ | $\leq 1.280 \& > 1.164$ | $\leq 1.164 \& > 1.058$ | $\leq 1.058 \& > 0.962$ | ≤ 0.962 |
| 140 | $\leq 1.586 \& > 1.441$ | $\leq 1.441 \& > 1.310$ | $\leq 1.310 \& > 1.191$ | $\leq 1.191 \& > 1.083$ | ≤ 1.083 |
| 200 | $\leq 1.761 \& > 1.601$ | $\leq 1.601 \& > 1.456$ | $\leq 1.456 \& > 1.323$ | $\leq 1.323 \& > 1.203$ | ≤ 1.203 |

TABLE: 3.2

Star rating plan validity (From 1st July, 2017 to 31st December, 2018)

| Rated Capacity (Litres) | 1 star | 2 star | 3 star | 4 star | 5 star |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Standing Losses (kWh/24 hour/45°C) | | | | | |
| 6 | $\leq 0.469 \& > 0.426$ | $\leq 0.426 \& > 0.387$ | $\leq 0.387 \& > 0.352$ | $\leq 0.352 \& > 0.320$ | ≤ 0.320 |
| 10 | $\leq 0.587 \& > 0.534$ | $\leq 0.534 \& > 0.485$ | $\leq 0.485 \& > 0.441$ | $\leq 0.441 \& > 0.401$ | ≤ 0.401 |
| 15 | $\leq 0.675 \& > 0.614$ | $\leq 0.614 \& > 0.558$ | $\leq 0.558 \& > 0.507$ | $\leq 0.507 \& > 0.461$ | ≤ 0.461 |
| 25 | $\leq 0.823 \& > 0.748$ | $\leq 0.748 \& > 0.680$ | $\leq 0.680 \& > 0.618$ | $\leq 0.618 \& > 0.562$ | ≤ 0.562 |
| 35 | $\leq 0.940 \& > 0.855$ | $\leq 0.855 \& > 0.777$ | $\leq 0.777 \& > 0.706$ | $\leq 0.706 \& > 0.642$ | ≤ 0.642 |
| 50 | $\leq 1.086 \& > 0.988$ | $\leq 0.988 \& > 0.898$ | $\leq 0.898 \& > 0.816$ | $\leq 0.816 \& > 0.742$ | ≤ 0.742 |
| 70 | $\leq 1.233 \& > 1.121$ | $\leq 1.121 \& > 1.019$ | $\leq 1.019 \& > 0.926$ | $\leq 0.926 \& > 0.842$ | ≤ 0.842 |
| 100 | $\leq 1.408 \& > 1.280$ | $\leq 1.280 \& > 1.164$ | $\leq 1.164 \& > 1.058$ | $\leq 1.058 \& > 0.962$ | ≤ 0.962 |
| 140 | $\leq 1.586 \& > 1.441$ | $\leq 1.441 \& > 1.310$ | $\leq 1.310 \& > 1.191$ | $\leq 1.191 \& > 1.083$ | ≤ 1.083 |
| 200 | $\leq 1.761 \& > 1.601$ | $\leq 1.601 \& > 1.456$ | $\leq 1.456 \& > 1.323$ | $\leq 1.323 \& > 1.203$ | ≤ 1.203 |

(b) for sub-paragraph (2), the following sub-paragraphs shall be substituted, namely:-

“(2) The permission for display of particulars on the storage type electric water heater up to the rated capacity of 100 litres for 1 star and 2 star specified in Table 3.2 shall not be permitted with effect from the 1st day of July, 2017 with a view to upgrade the minimum energy performance level of such storage type electric water heater.

(3) There shall be no negative tolerance for Star Rating Bands and all tested equipments shall meet the minimum threshold for each star rating level; and the scope for manufacturing tolerance and other variations shall be accounted by the manufacturer when determining the star rating.

(4) The star rating plan shall be reviewed after the expiry of period given in Table above or as deemed necessary by the Central Government.”.

[No. 13/14/2014-EC]

RAJ PAL, Economic Advisor

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section-3, sub-section (ii) vide notification number S.O. 2902(E), dated the 7th September, 2016.